



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 283]
No. 283]

नई दिल्ली, बुध्दतिवार, सितम्बर 28, 1978/अश्विन 6, 1900
NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 28, 1978/ASVINA 6, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation.

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
(स्वास्थ्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 सितम्बर, 1978

सां०कां०जि० 474 (घ) :—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रबत शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारत सरकार के भूतपूर्व स्वास्थ्य मंत्रालय की दिनांक 18 जनवरी, 1960 की अधिसूचना संख्या सी०एस०आर० 113 का अतिक्रमण करते राष्ट्रपति एतद्वारा राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान तथा राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम में शुप जी के पर्वों पर भर्ती की विधि का नियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं; नामतः

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारम्भ : (1) इन नियमों को राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान एवं राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम (शुप जी पर्व) भर्ती नियमावली, 1978 कहा जायेगा।
- (2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से लागू होंगे।
2. उपधोक्षण : ये नियम सलन अधिसूची के स्तम्भ 1 में निर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।
3. संख्या, वर्गीकरण तथा वेतनमान : पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा वेतनमान वहीं होंगे जैसाकि अधिसूची के स्तम्भ 2 से 4 में निर्दिष्ट हैं।
4. भर्ती की विधि, आयु सीमा, अर्हताएं आदि : उक्त पदों पर भर्ती की विधि, आयु-सीमा, अर्हताएं तथा अन्य बातें वही होंगी जैसा कि उक्त अधिसूची के स्तम्भ 5 से 13 में निर्दिष्ट हैं।

5. अर्हता : कोई व्यक्ति—

(क) जो किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह करता/करती है जिसका कि पति या जिसकी पत्नी जीवित हो, अथवा

(ख) जो व्यक्ति एक पति/पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति के साथ विवाह करता/करती है अथवा विवाह की संविदा करता/करती है,

उक्त पदों में से किसी पर नियुक्त होने का पात्र नहीं होगा परन्तु केन्द्रीय सरकार यह समाधान होने पर कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के दूसरे पक्षकार पर लागू होने वाली स्वीय विधि के अधीन अनुमति है, और ऐसा करने के अन्य आधारे हैं, किसी भी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है।

6. छूट देने की शक्ति: जहाँ केन्द्रीय सरकार का यह विचार हो कि छूट देना आवश्यक या उचित है वहाँ वह लिखित कारणों के आधार पर आदेश द्वारा किसी श्रेणी या वर्ग के व्यक्तियों अथवा पदों को इन नियमों के किसी संबंध से छूट दे सकती है।

7. भ्यावृत्ति: इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिए जिन प्रारक्षणों और अन्य रियायतों की व्यवस्था करना अपेक्षित है, उन पर इन नियमों की किसी बात का प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

क्रम संख्या तथा पद नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	सेलेक्शन पद है अथवा नाम-सेलेक्शन पद	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित तथा अन्य अर्हताएं	शैक्षणिक
1	2	3	4	5	6	7	
1. बकई	1	सामान्य केन्द्रीय ग्रुप (बी) अराजपत्रित	र० 210-4-226-र० र०-4-250-र० र०-5-290	लागू नहीं होता	18 से 25 वर्ष (सरकारी कर्मचारियों को 35 वर्ष तक की छूट है)	अनिवार्य: (1) मिडल पास। (2) बकई के काम में दक्षता। (3) अपने व्यवसाय का तीन वर्ष का अनुभव। यदि सेलेक्शन की किसी स्टेज पर सक्षम अधिकारी की यह राय हो कि अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए जो रिक्तियाँ प्रारक्षित हैं उनको भरने के लिए अपेक्षित अनुभव वाले इन जातियों के काफी उम्मीदवारों के उपलब्ध होने की संभावना नहीं है तो सक्षम अधिकारी के विवेक पर उन जातियों के उम्मीदवारों को अनुभव के संबंध में छूट दी जा सकती है।	

सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक अर्हताएं पदोन्नति के मामलों में लागू होंगी या नहीं	परिबीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती का तरीका, सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति के द्वारा अथवा स्थानान्तरण के द्वारा तथा विभिन्न तरीकों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता।	पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण के द्वारा भर्ती के मामले में वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण किया जाना है	यदि विभागीय पदोन्नति परिस्थितियाँ जिनकी भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श लिया जाता है
------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------

8	9	10	11	12	13	
लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता	<ol style="list-style-type: none"> उप निदेशक, राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान—2 उप निदेशक, राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम—2 उप निदेशक (प्रशासन)/स्वास्थ्य सेवा महाविद्यालय दिल्ली/नई दिल्ली में स्थित इस निदेशालय के किसी संस्थान का प्रशासनिक अधिकारी—2 प्रशासनिक अधिकारी, राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान 	वरिष्ठ स्तर उप-निदेशक अथवा अधिकारी होंगे।	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5	6	7
2. प्रयोगशाला प्रटेन्डेण्ट	79	सामान्य केन्द्रीय सेवा, ग्रुप (डी) अराज-पक्षित	र० 210-4-250-र० र०-5-270	सेलेक्शन	18 से 25 वर्ष (सरकारी कर्मचारियों को 35 वर्ष तक की छूट है)	किसी माय्यता प्राप्त विषयविद्यालय अथवा बोर्ड से विज्ञान के विषयों सहित मैट्रिक कर्मचारियों या इसके समकक्ष को 35 वर्ष योग्यता तक की छूट है।
3. अपरासी	42	सामान्य केन्द्रीय सेवा, ग्रुप (डी) अराज-पक्षित।	र० 196-3-220-र० र०-3-232	नान-सेलेक्शन	18 से 25 वर्ष (सरकारी कर्मचारियों के लिये 35 वर्ष तक की छूट है)	मिडल वर्जें तक पास।

8	9	10	11	12	13
नहीं	दो वर्ष	(1) 33½ प्रतिशत पदोन्नति द्वारा, यदि ऐसा संभव नहीं हो तो सीधी भर्ती द्वारा। (2) 66½ सीधी भर्ती द्वारा।	ग्रुप (डी) के निम्नलिखित वर्गों के उन कर्मचारियों से पदोन्नति द्वारा जो ग्राठमें कक्षा पास हों और जिनको अपने ग्रेड में तीन वर्ष की नियमित सेवा हो। 1. सुपीरियर-फील्ड वर्कर 2. फील्ड वर्कर 3. मनेरिया फील्ड वर्कर 4. मुख्य पशु प्रटेन्डेन्ट 5. पशु प्रटेन्डेन्ट	(1) उप निदेशक, राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान-2 2. उप निदेशक, राष्ट्रीय मनेरिया उन्मूलन कार्यक्रम-2 3. उप निदेशक (प्रशासन)/स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय दिल्ली/नई दिल्ली में स्थित इस निदेशालय के किसी संस्थान का प्रशासनिक अधिकारी-2 4. प्रशासनिक अधिकारी राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान	वरिष्ठ-लागू नहीं होता तम उप-निदेशक अध्यक्ष होंगे।
लागू नहीं होता	दो वर्ष	75 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा। 25 प्रतिशत हस्तांतरण द्वारा।	पांच वर्ष की नियमित सेवा वाले ऐसे सफाई वाले फराशों, चौकीदारों की बचली करके जो साक्षर हों और जो हिन्दी अथवा कोई एक स्थानीय भाषा पढ़ सकें हों।	1. उप निदेशक, राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान-2 2. उप निदेशक, राष्ट्रीय मनेरिया उन्मूलन कार्यक्रम-2 3. उप निदेशक (प्रशासन)/स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय दिल्ली/नई दिल्ली में स्थित इस निदेशालय के किसी संस्थान का प्रशासनिक अधिकारी-2 4. प्रशासनिक अधिकारी राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान	वरिष्ठ-लागू नहीं होता तम उप-निदेशक अध्यक्ष होंगे।

1	2	3	4	5	6	7
4. चौकीदार	30	सामान्य केन्द्रीय सेवा ग्रुप (डी) अराज- पत्रित	ब० 196-3-220-ब० रो० 3-232	लागू नहीं होता	18 से 25 वर्ष (सरकारी मिडल दर्जे तक पास, अधिमानतः, कर्मचारियों के लिए भूतपूर्व सैनिक 35 वर्ष तक की छूट है)	
5. फराश	3	सामान्य केन्द्रीय सेवा ग्रुप (डी) अराज- पत्रित	ब० 196-3-220-ब० रो० 3-232	लागू नहीं होता	18 से 25 वर्ष (सरकारी कर्मचारियों के लिये 35 वर्ष तक की छूट है)	प्राइमरी दर्जे तक पास

8	9	10	11	12	13
लागू नहीं होता	2 वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता	<p>(1) उप निदेशक, राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान—2</p> <p>(2) उप निदेशक, राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम—2</p> <p>(3) उप निदेशक (प्रशासन) स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय दिल्ली/नई दिल्ली में स्थित इस निदेशालय के किसी संस्थान का प्रशासनिक अधिकारी—2</p> <p>(4) प्रशासनिक अधिकारी राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान</p>	वरिष्ठतम लागू नहीं होता उपनिदेशक अध्यक्ष होंगे।
लागू नहीं होता	2 वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता	<p>(1) उप निदेशक, राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान—2</p> <p>(2) उप निदेशक, राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम—2</p> <p>(3) उप निदेशक (प्रशासन) स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय दिल्ली/नई दिल्ली में स्थित इस निदेशालय के किसी संस्थान का प्रशासनिक अधिकारी—2</p> <p>(4) प्रशासनिक अधिकारी राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान</p>	वरिष्ठतम लागू नहीं होता उप निदेशक अध्यक्ष होंगे

1	2	3	4	5	6	7
6. क्लीनर	16 सामान्य केन्द्रीय सेवा ग्रुप (डी) अराज- पत्रित	र० 196-3-220-५० र० 3-232	लागू नहीं होता	18 से 25 वर्ष (सरकारी कर्मचारियों के लिये 35 वर्ष तक की छूट है)	अतिव्यय : प्राथमरी वर्ज तक पास वांछित : मोटर ड्राइविंग का लाइसेंस हो	
7. मुख्य पशु परि- चारक	1 सामान्य केन्द्रीय सेवा ग्रुप (डी) अराज- पत्रित	200-3-206-4-234- र० र०-4-250 र०	नान-सेलेक्शन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	

8	9	10	11	12	13
लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता	<p>(1) उप निदेशक, राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान—2</p> <p>(2) उप निदेशक, राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम— 2</p> <p>(3) उप निदेशक (प्रशासन)/स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय दिल्ली/नई दिल्ली में स्थित इस निदेश- शालय के किसी संस्थान का प्रशासनिक अधिकारी—2</p> <p>(4) प्रशासनिक अधि- कारी राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान।</p>	<p>वरिष्ठतम लागू नहीं होता उप निदेशक अध्यक्ष होंगे</p>
लागू नहीं होता	दो वर्ष	प्रबोन्नति द्वारा	अपने ग्रेड में तीन वर्ष की नियमित सेवा वाले पशु परिचारकों और सफाईवालों की प्रबोन्नति द्वारा।	<p>(1) उप निदेशक, राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान—2</p> <p>(2) उप निदेशक, राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम— 2</p> <p>(3) स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय/निदेश- शालय के दिल्ली/नई दिल्ली स्थित किसी अध्यक्ष कार्यालय से उप निदेशक प्रशासन/ प्रशासन, अधिकारी—2</p> <p>(4) प्रशासन अधि- कारी, राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान</p>	<p>वरिष्ठतम लागू नहीं होता उप निदेश- क अध्यक्ष होगा</p>

1	2	3	4	5	6	7
8. पशु परिवारक	88 सामान्य केन्द्रीय सेवा ग्रुप (डी) अराज- पञ्चित	196-3-220-ब०-रो०- 3-232 ब०	लागू नहीं होता	18 से 25 वर्ष (सरकारी कर्मचारियों के मामले में 35 वर्ष तक)	प्राथमिक वर्जा उत्तीर्ण का प्रमाणपत्र	
9. सफाईवाला	23 सामान्य केन्द्रीय सेवा ग्रुप (डी) अराज- पञ्चित	196-3-220-ब० रो०- 3-232 ब०	लागू नहीं होता	18 से 25 वर्ष (सरकारी कर्मचारियों के मामले में 35 वर्ष तक)	प्राथमिक वर्जा उत्तीर्ण का प्रमाण-पत्र	

8	9	10	11	12	13
लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता	<p>(1) उप निदेशक, राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान—2</p> <p>(2) उप निदेशक, राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम —2</p> <p>(3) स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय/निवे- शालय के दिल्ली/ नई दिल्ली स्थित किसी अन्य कार्यालय से उप निदेशक प्रशासन/प्रशासन अधिकारी—2</p> <p>(4) प्रशासन अधि- कारी, राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान।</p>	<p>वरिष्ठतम लागू नहीं होता उप निदे- शक अध्यक्ष होगा</p>
लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता	<p>(1) उप निदेशक, राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान—2</p> <p>(2) उप निदेशक, राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम— 2</p> <p>(3) स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय/निवे- शालय के दिल्ली/ नई दिल्ली स्थित किसी अन्य कार्यालय से उप निदेशक प्रशासन/प्रशासन अधिकारी—2</p> <p>(4) प्रशासन अधि- कारी, राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान।</p>	<p>वरिष्ठतम लागू नहीं होता उपनिदेशक अध्यक्ष होगे।</p>

1	2	3	4	5	6	7
10. दफ्तरी	7 सामान्य केन्द्रीय सेवा ग्रुप (डी) प्रराज- पत्रित	200-3-206-4-234- ब० रो०-4-250	नान-सैलेक्शन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	
8	9	10	11	12	13	
लागू नहीं होता	बो वर्ष	पदोन्नति द्वारा	चपरासी के पद पर नियमित रूप से नियुक्ति के बाद उस ग्रेड में तीन वर्ष की सेवा वाले चपरासियों की पदोन्नति द्वारा	(1) उप निदेशक, राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान—2 (2) उप निदेशक, राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन संस्थान— 2	(3) स्वस्थ सेवा महानिदेशालय/निवे- शालय के बिस्ली/ नई बिस्ली स्थित किसी अन्य कार्यालय से उप निदेशक प्रशासन/प्रशासन अधिकारी—2 (4) प्रशासन अधि- कारी, राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान	वरिष्ठतम लागू नहीं होता उपनिदेशक प्रध्यक्ष होगा

[संख्या ए० 12018/6/77-सामान्य (सी० एण्ड सी० डी०)]

रा० कि० सिबल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE

(Department of Health)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th Sept., 1978.

G.S.R. 474 (E) :—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the notification of the Government of India in the late Ministry of Health No.G.S.R. 113, dated the 18th January, 1960, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to Group 'D' posts in the National Institute of Communicable Diseases and the National Malaria Eradication Programme, namely :—

1. Short title and commencement :—(1) These rules may be called the National Institute of Communicable Diseases and the National Malaria Eradication Programme (Group D Posts) Recruitment Rules, 1978.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application : These rules shall apply to the posts specified in column I of the Schedule annexed of these rules

3. Number, Classification and scale of pay: The number of the posts, their classification and the scale of pay attached thereto, shall be as specified in column 2 to 4 of the Schedule aforesaid.

4. Method of recruitment, age limit and other qualifications : The method of recruitment, age limit, qualifications and other matter relating to the said posts shall be as specified in column 5 to 13 of the said Schedule.

5. Disqualification : No person :—

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or
- (b) who having a spouse living has entered into or contracted a marriage, with any person, shall be eligible for appointment to any of the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied, that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of these rules.

6. Power to relax: Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons or posts.

7. Saving : Nothing in these rules shall effect reservation, relaxation of age limit and other concessions to be provided for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Serial number and Name of the post	No. of posts	Classification	Scale of Pay	Whether Selection or Non-Selection	Age for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits.
1	2	3	4	5	6	7
1. Carpenter	1	General Central Service Group 'D' Non-Gazetted	Rs.210-4-226-EB-4-250-EB-5-290	Not applicable	18 to 25 years. (Relaxable upto 35 years in case of Government Servants.)	Essential :— (i) Middle Pass. (ii) Proficiency in Carpentry work. (iii) Three years' experience in the trade. The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the competent authority in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of Selection, the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by deputation, transfer and percentage of the vacancies to be filled by various Methods	In case of recruitment by promotion/transfer grades from which promotion, deputation, transfer to be made.	If a DPC exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
8	9	10	11	12	13
Not applicable	Two years	By direct recruitment	Not applicable	(i) Deputy Director, National Institute of Communicable Diseases—Two (ii) Deputy Director, National Malaria Eradication Programme—Two (iii) Deputy Director (Administration)/Administrative Officer from the Directorate General of Health Services/Any other institution of this Directorate located in Delhi/New Delhi.—Two (iv) Administrative Officer, National Institute of Communicable Diseases.	Senior-most Deputy Director shall be the Chairman Not applicable

1	2	3	4	5	6	7
2. Laboratory Attendant	79	General Central Service Group 'D' Non-gazetted	Rs.210-4-250-EB-5-270.	Selection	18 to 25 years (Relaxable upto 35 years in case of Government Servants.)	Matriculation or equivalent qualification with Science subjects from a recognized University or Board.

8	9	10	11	12	13
No	Two years	(i) 33½% by promotion falling which by direct recruitment. (ii) 66½% by direct recruitment.	By promotion from the following categories of Group 'D' employees who are 8th Class Pass and above 3 years' regular service in the grade :— (1) Superior Field Worker (2) Field Worker (3) Malaria Field Worker (4) Head Animal Attendant	(i) Deputy Director, National Institute of Communicable Diseases—Two (ii) Deputy Director, National Malaria Eradication Programme—Two (iii) Deputy Director Administration/Administrative Officer from the Directorate General of Health Services/Any other	Senior-most Deputy Director shall be the Chairman. Not applicable.

8	9	10	11	12	13	
			(5) Animal Attendant.	institution of this Directorate located in Delhi/New Delhi—Two		
				(iv) Administrative Officer, National Institute of Communicable Diseases		
1	2	3	4	5	6	7
3. Peon	42	General Central Service Group 'D' Non-gazetted	Rs. 196-3-220-1B-3-232.	Non-selection	18 to 25 years (Relaxable upto 35 years in case of Government Servants).	Middle standard pass.
8	9	10	11	12	13	
Not applicable.	Two years	75% by direct recruitment 25% by transfer.	By transfer from Safaiwal Frash, Chowkidar with 5 years' regular service and who possess elementary literacy and ability to read Hindi language or a Regional language.	(i) Deputy Director, National Institute of Communicable Diseases.—Two (ii) Deputy Director, National Malaria Eradication programme —Two (iii) Deputy Director Administration/Administrative Officer from the Directorate General of Health Services/Any other institution of this Directorate located in Delhi/New Delhi—Two. (iv) Administrative Officer, National Institute of Communicable Diseases.	Not applicable. Senior most Deputy Director shall be the Chairman	

1	2	3	4	5	6	7
4. Chowkidar/- Watchman	30	General Central Service Group 'D' Non- gazetted.	Rs. 196-3-220-EB-3- 232.	Not appli- cable	18 to 25 years. (Relaxable upto 35 years in case of Government Servants	Middle standard pass preferable ex-serviceman.

8	9	10	11	12	13
Not applicable.	Two years	By direct recruitment	Not applicable.	(i) Deputy Direc- tor, National In- stitute of Comm- unicable Discas- es — Two (ii) Deputy Direc- tor, National Malaria Eradica- tion programme —Two (iii) Deputy Direc- tor Administration/ Administrative Officer from the Directorate Gene- ral of Health Services/Any other institution of this Directorate located in Delhi/ New Delhi. — Two (iv) Administrative Officer, National Institute of Com- municable Diseas- es.	Not applicale.

1	2	3	4	5	6	7
5. Farash	3	General Central Service Group 'D' Non- Gazetted.	Rs. 176-3-220-EB-3- 232.	Not appli- cable	18 to 25 years (Relaxable upto 35 years in case of Govt. Servants)	Primary Standard Pass

12

(iii) Deputy Director Administration/Administrative Officer from the Directorate General of Health Services/Any other institution of this Directorate located in Delhi/New Delhi —Two

(iv) Administrative officer, National Institute of Communicable Diseases.

1	2	3	4	5	6	7
7. Head Animal Attendant	1	General Central Service Group 'D' Non-Gazetted	Rs. 200-3-206-4-23-4 EB-4-250	Non-selection	Not applicable	Not applicable
8	9	10	11	12	13	
Not applicable	Two years	By promotion	By promotion from Animal Attendant and Safaiwala with three years' regular service in the grade.	(i) Deputy Director, National Institute of Communicable Diseases—Two (ii) Deputy Director, National Malaria Eradication Programme—Two (iii) Deputy Director Administration/ Administrative Officer from the Directorate General of Health Services/Any other institution of this Directorate located in Delhi/New Delhi.—Two (iv) Administrative Officer, National Institute of Communicable Diseases.	Senior most Deputy Director shall be the Chairman	Not applicable

1	2	3	4	5	6	7
8. Animal Attendant	88	General Central Service Group 'D' Non-Gazetted	Rs. 196-3-220-EB-3-232.	Not applicable	18 to 25 years. (Relaxable upto 35 years in case of Government servants).	Primary standard Pass

8	9	10	11	12	13
Not applicable	Two years	By direct recruitment	Not applicable	(i) Deputy Director, National Institute of Communicable Diseases. —Two (ii) Deputy Director, National Malaria Eradication Programme —Two (iii) Deputy Director Administration/Administrative Officer from the Directorate General from the Directorate General of Health Services/Any other institution of this Directorate located in Delhi/ New Delhi —Two (iv) Administrative Officer, National Institute of Communicable Diseases.	Not applicable Senior most Deputy Director shall be the Chairman

1	2	3	4	5	6	7
9. Safaiwala	23	General Central Service Group 'D' Non-Gazetted.	Rs. 196-3-220-EB-3-232	Not applicable.	18 to 25 years (Relaxable upto 35 years in case Government servants).	Primary standard Pass.
8	9	10	11	12	13	
Not applicable	Two years	By direct recruitment	Not applicable	(i) Deputy Director, National Institute of Communicable Diseases—Two (ii) Deputy Director, National Malaria Eradication Programme—Two	Senior most Deputy Director shall be the Chairman	Not applicable

12

(iii) Deputy Director Administration/Administrative Officer from the Directorate General of Health Services/Any other institution of this Directorate located in Delhi/New Delhi—Two

(iv) Administrative Officer, National Institute of Communicable Diseases.

1	2	3	4	5	6	7
10. Daftry	7	General Central Service Group 'D' Non-gazetted.	Rs. 200-3-206-4-234-EB-4-250	Non-selection	Not applicable	Not applicable.
8	9	10	11	12	13	
Not applicable	Two years	By promotion	By promotion from Peons with 3 years' service in the grade after regular appointment thereto.	(i) Deputy Director, National Institute of Communicable Diseases—Two (ii) Deputy Director, National Malaria Eradication Programme—Two (iii) Deputy Director Administration/Administrative Officer from the Directorate General of Health Services/Any other institution of this Directorate located in Delhi/New Delhi—Two (iv) Administrative Officer, National Institute of Communicable Diseases.	Senior most Deputy Director shall be the Chairman	Not applicable

[No. A.-12018/6/77-G/C&CD]

R.K. SINGHAL, Jt. Secy.

